

दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., दौसा

प्रधान कार्यालय : सहकार भवन, खान भांकरी रोड, दौसा (राज.)

-: अमानतों पर ब्याज दर :-

बैंक द्वारा अमानतों पर दी जाने वाली ब्याज दरों का विवरण

क्र.सं.	अमानतों की अवधि/ प्रकार	वर्तमान ब्याज दर
1.	चालू खाता	0%
2.	बचत खाता	3.50%
3.	सावधि जमा खाता अ - त्रैमासिक आय योजना ब - री-इनवेस्टमेंट प्लान	
	7 से 14 दिवस	4.30%
	15 से 29 दिवस	4.55%
	30 से 45 दिवस	4.55%
	46 से 90 दिवस	5.50%
	91 से 179 दिवस	5.65%
	180 से 270 दिवस तक	6.25%
	271 से एक वर्ष से कम तक	6.50%
	1 वर्ष हेतु	7.00%
	399 दिवस	7.35%
	715 दिवस	7.40%
	1 वर्ष से 2 वर्ष से कम तक	7.30%
	2 वर्ष एवं 3 वर्ष से कम तक	7.30%
	3 वर्ष एवं 5 वर्ष से कम तक	7.15%
	5 वर्ष एवं 5 वर्ष से 10 वर्ष तक	7.05%
4.	रेकरिंग अमानतें :- मियादी अमानतों पर दी जाने वाली ब्याज दरें ही अवधि के अनुसार देय होंगी।	

नोट :-

- ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित मिनी बैंकों को वर्णित दरों से 0.50 प्रतिशत जमा पर अधिक ब्याज दिया जायेगा।
- वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक है उनके द्वारा आयु का प्रमाण पत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिये कम से कम 10,000 रु. स्थाई अमानतों में जमा कराने पर 1/2% अधिक ब्याज देय होगा। आपकी सभी जमाएँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित डिपोजिट गारन्टी इन्श्योरेन्स योजना के अन्तर्गत बीमित हैं।

बैंक में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं :-

- बैंक में धन जमा कराने पर कैश हेन्डलिंग चार्ज नहीं लिए जाते हैं।
- बैंक से खाते से नकद धन निकालने पर निकासी कर (बी.सी.टी.टी.) भी नहीं लिया जाता है।
- एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा मियादी अमानतों पर अर्जित 10000/- रु. तक की ब्याज की राशि के स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाती है।
- यदि मियादी अमानतों पर ब्याज की राशि एक वित्तीय वर्ष में 10000/- रु. से अधिक अर्जित होती है तो वरिष्ठ नागरिक फार्म नं. 15 H अन्य खातेदारों फार्म नं. 15 G भरकर स्रोत पर कर कटौती से मुक्त हो सकते हैं।